

Date: - 5th June, 2024

BSE Ltd.	National Stock Exchange of India Ltd.	
Regd. Office: Floor - 25,	Listing Deptt., Exchange Plaza,	
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Bandra Kurla Complex, Bandra (East),	
Dalal Street, Mumbai-400 001.	Mumbai - 400 051	
BSE Scrip Code: 543300	NSE Scrip: SONACOMS	

SUBJECT: - SUBMISSION OF NEWSPAPER CLIPPINGS

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with Circular issued by Ministry of Corporate Affairs, we hereby enclose copies of the Notice for the attention of the Equity Shareholders of the Company published on 5th June, 2024 in Business Standard (English and Hindi) newspapers in respect of information regarding 28th Annual General Meeting scheduled to be held on Friday, 28th June, 2024 at 12.00 Noon (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM).

This is for your information and record.

Thanking you,

For SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

Ajay Pratap Singh Vice President (Legal), Company Secretary and Compliance Officer

Enclosed: As above

Spectrum auction deferred to Jun 25

SUBHAYAN CHAKRABORTY

New Delhi, 4 June

The department of telecommunications (DoT) on Tuesday postponed the spectrum auction by 19 days to June 25. This is the second rescheduling of the auction, after it was pushed from May 20 to June 6.

While no official reason was cited, the move is expected to give the new, incoming government more time. The government plans to auction eight spectrum bands.

On February 8, the Union Cabinet had approved the auction of 10,523.15 megahertz (MHz) of spectrum across bands at a reserve price of ₹96,317 crore.

All unsold spectrums from the last sale will be up for bidding again. Airwaves in the 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 MHz and 26 GHz bands, covering a large chunk of voice and data spectrum, are up for sale.

The latest decision has been necessitated by the fractured electoral mandate, officials said on condition of anonymity. No single political party touched the halfway 272 mark in the Lok Sabha as of the time of writing

RIL takes over land for economic hub in Navi Mumbai

AMRITHA PILLAY

Mukesh Ambani-promoted Reliance Industries (RIL) on Tuesday said its wholly owned subsidiaries have completed the registration of a sublease deed for 3,750 acres of land in Maharashtra, where it plans to develop a global economic hub. The firm had in February 2018 signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Maharashtra government to develop the global economic hub consisting of world-class integrated digital and services industrial area with global partnerships, "RIL's wholly owned subsidiaries have completed the registration of sub-lease deeds for about 3,750 acres of land along with the associated development rights for a period of 43 years for an aggregate consideration of ₹13,400 crore from Navi Mumbai IIA Private Limited, in which CIDCO holds 26 per cent," the statement on BSE said.

CIDCO is City and Industrial Development Corporation, a state-run town planning agency for Navi Mumbai.

As order books grow, capital goods, engg companies firm up capex plans

1,000


capital

As order books gain from India's increased capital outlay, some large capital goods and engineering companies are together spending over ₹11,500 crore in creating new facilities, data shows.

Nine engineering and capital goods companies, where data was available, including Siemens, Larsen & Tourbo (L&T) and KEC International, have a combined capital expenditure (capex) of about ₹11,500 crore or more.

Others such as ABB India and Thermax Global are also adding capacities. However, these companies do not disclose capex numbers.

With presence in the transmission and distribution (T&D) segment. Kalpataru Projects International's tower manufactur**BIG PLANS** (₹ crore)



Hindustan Siemens*

Toubro* Aeronautics *Capex spread beyond FY25

ing capacity is operating at full capacity.

The company plans to invest about ₹500 crore in the current financial year.

Amit Uplenchwar, director of the company, noted this is the highest ever as the company is expanding to newer segments such as the metro-systems. Engineering

Bharat CG Power* Electronics

Source: Company Announcements, Analyst Call transcripts

services firm ABB India, did not

Business Standard's query, it said,

The company follows a very clear

policy.

allocation

Approximately 30-35 per cent is

dedicated to meeting the network-

ing capital expenditure needs for

growth. The balance would be ear-

share the exact capex numbers.

G Balaji, president, energy industries of process automation. ABB India, said while it is investing equally across all divisions, the energy division's capex is focused on emerging areas like hydrogen.

those adding new factories.

marked for inorganic and organic

close capex numbers, but

informed analysts it will be invest-

ing in capacity expansion in the

chemicals and industrial water

products. The biggest portion of

their capex would go to the green

energy are gaining ground among

Investments in green and new

energy segment.

Thermax Global does not dis-

Earlier this month, Siemens announced it will be doubling its capex commitments to ₹1,000 crore. The company noted that the amount is to be spent in the next three years.



SONA COMSTAR

SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED CIN: L27300HR1995PLC083037

Registered and Corporate Office: Sona Enclave, Village Begumpur Khatola, Sector 35, Gurugram, Harvana - 122004. India

Telephone: +91 124 476 8200

E-mail: investor@sonacomstar.com, Website: www.sonacomstar.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, 28th June, 2024 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing mode(VC)/Other Audio Visual Means(OAVM) facility without the physical presence of the members at the Common Venue, to transact the business items as set out in the Notice of the AGM.

The Company has sent the Notice of 28th AGM only through electronic mode on Tuesday, 4th June 2024 to those members of the Company whose email address are registered with the Company Depository Participant(s) as on Friday, 31st May, 2024 in accordance with the circulars dated 25th September, 2023, 28th December, 2022, 5th May, 2022, 14th December, 2021 read with circulars dated 13th January, 2021, 5th May, 2020, 8th April 2020 and 13th April, 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circulars dated 7th October, 2023, 5th January 2023, 13th May, 2022 read with 15th January, 2021 and 12th May, 2020 Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as "Circulars"). The requirement of sending the physical copies of Annual Report has been dispensed with, reference to above mentioned Circulars. The Notice of 28th AGM along with the Annual Report of the Company is available on the Company's website at www.sonacomstar.com and on the website of the Stock Exchange(s) i.e, BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, on the vebsite of NSDL at evoting.nsdl.com. Member may access the Annual Report of the Company through https://sonacomstar.com/investor/annual-reports-and-returns.

Members can attend and participate in AGM through VC/OAVM facility only. The instruction for joining the AGM and manner of participation in remote e-voting or casting vote for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Members who have not registered their email addresses through the e-voting system during 28th AGM, is provided in the Notice of AGM. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act

The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, the Register of Contracts or arrangements in which the directors are interested under Section 189 of the Companies Act, 2013, Annual Report along with the AGM Notice and all other documents as referred in the Notice and explanatory statement, including certificate from the Secretarial Auditors of the Company under Regulation 13 of SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 will be available electronically for inspection without any fee by the members, from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM, i.e Friday, 28th June, 2024 and also during the AGM. Members seeking to inspect such documents car send an email at investor@sonacomstar.com

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and the SEBI and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-Voting and e-Voting at the AGM to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-Voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

he Members, whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as Cut Off Date i.e., Friday, 21st June, 2024 are entitled to vote on the Resolutions set forth in this Notice. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice of AGM for information purpose only. Once the vote on a resolution is casted by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently or vote again during the AGM.

The remote e-voting period begins on Tuesday, 25th June, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Thursday, 27th June, 2024 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the Cut Off Date i.e., Friday, 21st June, 2024 may cast their vote electronically. The voting right of members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company

As per the abovementioned Circular issued by SEBI, no physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be sent to the Members. Members who have not registered /updated email addresse are requested to follow the process as mentioned below:

Manner of registering / updating email addresses for members holding shares in physical mode: Members holding shares in physical mode who have not registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by providing the signed Form ISR-1 to Company's Registrar and Transfer Agent (RTA). Members can also write to the

Company/RTA at investor@sonacomstar.com / einward.ris@kfintech.com respectively along with the copy of signed Form ISR-1 mentioning all the details including Folio Number name and address of the Member, Permanent Account Number (PAN), Email address, Mobile

B) Manner of registering / updating email addresses for members holding shares in dematerialised mode: Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses by contacting their respective Depository Participants.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ankit Singhi (FCS No.-11685; CP No. 16274 and failing him, Mr.Nitesh Latwal (AĆS No.-32109; CP No. 16276) Partners of M/s. PI & Associates Practising Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and voting through electronic voting system at the AGM in a fair and transparent manner.

The Record date for the purpose of determining entitlement of the shareholders for the final dividend for Financial Year 2023-2024 is Friday, 14th June, 2024. The payment of the final dividend shall be made within 30 days from the date of its declaration subject to the approval of the shareholders in the ensuing AGM. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their KYC with thei depositories (where shares are held in dematerialised mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) by providing the signed Form ISR-1 which is available on the website of the Company at https://sonacomstar.com/investor-relations. The manner in which the members who wish to register Electronic Bank Mandate for receiving the dividends directly in their bank account(s) on payout date are detailed in the Notice of the AGM.

For any query members may contact the Company at 91-124-4768200 / E-Mail ID investor@sonacomstar.com or Company's Registrar and Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Limited (formerly known as "Karvy Fintech Private Limited") having their office at Selenium Building Tower B, Plot Nos. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal Hyderabad – 500 032. Contact details: Toll Free No.: 1800-3094-001; or send an email request at the email id: einward.ris@kfintech.com.

For and on behalf of the Board of Directors of SONA BLW PRECISION FORGINGS LIMITED

Ajay Pratap Singh

Date: 04th June, 2024 Group General Counsel, Company Secretary and Compliance Office M.No. F5253 Place: Gurugram



SONA





SONA BLW



Manner of registering / updating email addresses:









SONA COMSTAR

punjab national bank

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110 075 (Email hosd@pnb.co.in)

Notice of the 23rd AGM of the Bank to be held through VC/OAVM

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 23rd Annual General Meeting of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Saturday, 29° June 2024 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing(VC)/Other Audio Visua Means (OAVM) facility in compliance of the applicable provisions of the SEB (LODR) Regulations, 2015 read with General Circular No. 09/2023 dated 25" September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CPD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 07th October, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CED/ PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 issued by SEBI, without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the business as set forth in the AGM Notice:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Aud Report on the Balance Sheet and Accounts.
- To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2023-24. Special Business
- To approve the Material Related Party Transactions of the Bank
- The Annual Report for the year 2023-24 along with the Notice of the AGM will be sent *only* through email to all those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant (DP), in accordance with the aforementioned Circular(s).
- The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Bank i.e. https://www.pnbindia.in/annual-reports.html and the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com
- Shareholders can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and such participation shall be counted for the purpose of reckoning the quorum. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM have been set forth in the detailed Notice of AGM.
- No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, West Wing, Second Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to sachincs2022@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. of Monday, 24th June, 2024.
- The Register of Shareholders of the Bank will remain closed from Sunday, 23rd June, 2024 till Saturday, 29th June, 2024 (both days inclusive).
- The Board of Directors has recommended a dividend of ₹1.50 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31"March, 2024. The Record Date for payment of Dividend will be Saturday, 22nd June, 2024. The dividend payment date will be Friday, 12" July, 2024.
- For receiving the dividend directly into the bank account, Shareholders are requested to register/update their bank details by submitting the requisite documents to the concerned DP (for shares held in demat form) and to the Bank/Bank's Registrar and Share Transfer Agent (STA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. (for shares held in physical form).
- Shareholders holding shares in physical form, are required to furnish valid PAN, choice of Nomination, Contact Details, Mobile Number, Bank Account Details and undated Specimen Signature immediately to the Bank's RTA in the prescribed forms (available on the Bank's website link: https://www.pnbindia.in/Important-Announcement-to-Physical Shareholders.html), if not already done, to avail uninterrupted service requests as well as dividend credit in bank account, as no dividend can be paid by way of issuance of physical warrant, with effect from 01st April, 2024. For convenience, the shareholders may also dematerialise the physical holding so as to avail the benefit of electronic dividend payment.
- As per the Income-Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020 dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be tayable in the hands of the Shareholders. Accordingly, the dividend will be paid by the Bank after deducting applicable TDS, if any. Shareholders are requested to furnish the requisite documents/forms to the Bank/Bank's STA at hosd@pnb.co.in or beetalrta@gmail.com, latest by 22rd June, 2024. For details, Shareholders may please refer to the Notice of the AGM.
- 10. Shareholders are required to link their Aadhaar number with PAN as required under Section 139AA(2) read with rule114AAA, before the Record Date. If any PAN is found to have not been linked with Aadhaar within the stipulated timelines, then such PAN shall be deemed inoperative and TDS will be deducted at higher rate under section 206AA of the Act. The Bank reserves its right to recover any demand raised subsequently on the Bank for not informing or providing wrong information about applicability of Section 206AA
- . In compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote evoting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by NSDL. The shareholders are requested to follow the procedure as detailed in the Notice of the AGM. A copy of the Notice of AGM shall also be made available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- 12. The remote e-voting will commence from 09.00 a.m. of Wednesday. 26th June 2024 to 05.00 p.m. of Friday, $28^{\rm m}$ June, 2024. No remote e-voting will be allowed beyond this date and time.
- 13. The Bank has fixed Saturday, 22nd June, 2024 as the cut-off Date for determining voting rights of shareholders entitled to participate in the remote e-voting process/e-voting at the AGM in respect of the business to be transacted at the Meeting. Any person, who acquires shares of the Bank and becomes a shareholder after emailing of the Annual Report (including the Notice of AGM) and holding shares as on the cut-off date, may follow the procedure as provided in the Notice of the AGM for obtaining the login ID and assword for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of shareholders/Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting
- 4. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
- 15. A shareholder may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be a
- vote again at the AGM. 16. Shareholders holding shares in physical form, who have not registered their email ids are requested to register the same with the Bank's STA at beetalrta@gmail.com while those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered/updated their email ids are requested to approach their DP for the same, at the earliest
- 17. Shareholders holding shares in physical form or who have not registered their email ids with the Bank/DP are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM as detailed in the Notice
- 18. In case of any query/grievance connected with the facility for e-voting or attending the AGM through VC, shareholders may contact Ms. Pallavi Mhatre Senior Manager at evoting@nsdl.com or at telephone nos.: 022-48867000 and 022-24997000.

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank

(Ekta Pasricha)

Beneficial ownership norms in focus as **MNCs face scrutiny**

Who is an SBO? An

New Delhi, 4 June

The latest ruling by the Registrar of Companies (RoC) in the LinkedIn Technology Information case for violating significant beneficial ownership (SBO) norms has brought the amended rules into the spotlight. Experts suggest that more entities, particularly multinational companies (MNCs), are expected to face greater scrutiny.

"Companies are closely watching this space. If Satva Nadella (Microsoft CEO) can be deemed a significant beneficial owner, then by that logic, several global CEOs would need to declare themselves as significant beneficial owners," a senior executive at a Big Four firm said.

Section 90 of the Companies Act deals with identifying individuals who own a beneficial interest in a company. It requires companies to disclose SBO details.

On May 22, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) imposed a fine of ₹27.1 lakh on Nadella and eight other executives for violating SBO norms related to LinkedIn Technology Information, according order the PoC said that the company and its officers failed to send a notice, as mandatorily required by Rule 2A (2) of the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules.

"LinkedIn, on its website, has disclosed that Rvan Roslansky reports to Nadella and is part of Microsoft's senior leadership team... Nadella is also a significant beneficial owner of the subject company

SB0 including name, individual, group of address, date of individuals, a trust, birth, ownership including residents

SBO UNDER SECTION 90 OF COMPANIES ACT

outside India holding beneficial interests of at least 25 per cent or as may be prescribed in company's shares or have significant influence or control The law requires companies

to maintain a register of

This information can be inspected by any member of the company on payment of a prescribed fees. Companies also have

those identified as

details etc

to file return of its SBOs

with the Registrar office

under Section 90." Experts noted that the SBO provisions have faced compliance issues since their introduction due to

interpretational challenges. "The recent RoC orders on SBO compliance will force MNCs and other companies to rethink their position on disclosures related to SBO provisions, as it appears that the MCA is viewing terms like 'control' and 'significant influence' from a much broader perspective." said Ankit Singhi, partner at Corporate Professionals.

The RoC's order clarified that the law does not require a significant beneficial owner to necessarily take part in the to an order by RoC for Delhi day-to-day operations of a and Haryana. In its 63-page company or have direct control

now the MCA is checking who has complied with the requirements and who has not. It is a vidual as the significant owner. fair ask. The law has been in place since 2013. The rules time, and it is fair if the MCA asks companies to comply," Mehul Modi, partner at bodies. Deloitte India, said.

individuals or groups who can influence companies without directly owning shares.

"Who is at the end of the line of ownership? You cannot have an individual. There has to be a living individual who is the brain behind the entity. Modi added. Earlier this month, the

MCA discovered that the founder and CEO of a large private equity firm had violated the law by not disclosing themselves as significant beneficial owners. The case involved Leixir Resources, which is owned by Leixir Intermediate Corp, while the ultimate holding company is ComVest Leixir Holdings LLC.

Some company law experts lieve that the "All were given time, and targets funds or companies with opaque structures where it is hard to pinpoint an indi-

In Leixir's case, the RoC observed that the general parthave been there for a long ner and the investment manager of ComVest Investment Partners V LP were corporate

The law intends to identify More on business-standard.com

APPOINTMENTS

Government of India **Ministry of Petroleum and Natural Gas**

Invites applications for the post of

Chairman

Indian Oil Corporation Ltd. Last date of receipt of applications in MoP&NG is by 15:00 hours on <u>03.07.2024</u>

For details login to website https://mopng.gov.in

Advertisement No. 48/2024 Government of India **Public Enterprises Selection Board** invites applications for the post of **DIRECTOR (COMMERCIAL)**

MECON LIMITED

Last date of submission of application by applicants is by 15.00 hours on 27th June, 2024

Last date of forwarding of applications by the Nodal Officers to PESB is by 15.00 hours on 8th July, 2024.

For details login to website http://pesb.gov.in

Tata Motors Finance to merge with **Tata Capital**

AATHIRA VARIER Mumbai, 4 June

Tata Capital and Tata Motors Finance have approved a merger of Tata Motors Finance with Tata Capital through an NCLT scheme of arrangement, Tata Motors said on Tuesday. Tata Capital will issue its equity shares to shareholders Tata Motors resulting in the automobile firm effectively holding a 4.7 per cent stake in the merged entity.

The boards of Tata Motors,

Tata Motors will hold the stake indirectly through its 100 per cent subsidiary TMF Holdings Limited — an RBI registered non-banking finance company - core investment company. "The transaction is also in-line with TML's stated objective of exiting non-core businesses and focus its capital spends on emerging technologies and products," Tata Motors said.

NEW DELHI: Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at The Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Business Standard Private Limited, Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002 Editor: Shailesh Dobhal, RNI NO. 57376/1994 Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in Ph. 011-23720202, Fax:+91-11-23720201 For Subscription and Circulation enquiries please contact:Ms. Mansi Singh Head-Customer Relations. Business Standard Private Limited. H/4, Building H,Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, PB.Marg, Worli, Mumbai - 400013 E-mail: subs_bs@bsmail.in "or sms, REACHBS TO 57575. NO AIR SURCHARGE















Place: New Delhi





















पह मैसर्स रहेजा डेवलेपर्स लिमिटेड के नाम से खार यह मसस रहजा डवलपस लिगटड क नाम स खात के संबंध में दिनांक 06.06.2024 को आयोजित की जाने वाली ई-नीलामी के लिए बिजनेस स्टेंडर्ड (अंग्रेजी / हिंदी) विल्ली / एनसीआर संस्करण विनांक २७.०४.२०२४, और अमर उजाला (हिंदी) संस्करण नैनीताल दिनांक २७.०४.२०२४ में प्रकाशित बिक्री सचना दिनांक 26.04.2024 के संदर्भ के साथ है। उक्त बिक्री सूचना में संपत्ति का विवरण मूलवश गलत वर्णित था। अतः कृपया दोबारा संपत्ति का विवरण निम्नानुसार पढ़ा जाए :— निम्नलिखित् फ्लैट ब्रीमेर एस्टेट, रहेजा पाइन गार्डन के नाम से

ज्ञात, जिला नैनीताल, उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं :			
क्र. सं. फ्लैट का विवरण		(वर्ग फुट) लगभग	
1	फ्लैट नं. 1	2000	
2	फ्लैट नं. 2	1500	
3	फ्लैट नं. 7	786	
4	फ्लैट नं. 101	2000	
5	फ्लैट नं. 104	1122	
6	फ्लैट नं. 107	786	
7	फ्लैट नं. 202	1500	
8	फ्लैट नं. 203	1500	
9	फ्लैट नं. 209	786	
10	फ्लैट नं. लोंग हट नं.—1	1122	
11	फ्लैट नं. लोंग हट नं.–2	1122	
12	फ्लैट नं. एनसी—1	500	
13	फ्लैट नं. एनसी—2	500	
14	फ्लैट नं. एनसी—3	500	
15	फ्लैट नं. एनसी—4	500	
सभी ि अन्य र	फेटिंग व फिक्चस व कॉमन सभी विवरण समान रहेंगे ।		
दिनांव	ह : 04.06.2024 • दिक्की	प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक	



हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मेंपीरेट कार्यालयः क्रमांक 167—169, दूसरी मंजिल, जन्मा सलाई, सैंदापेट, चेन्यु-600015 प्रात्ता कार्यालयः कंगांलय संख्या 311 और 312, आईटीएल विंक्स टॉवर ए-9, एनएसपी, पीतमपुरा, दिल्ली—110034 शद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र इस समाचार पत्र में 03.06.2024 को प्रकाशित कब्जे के नोटिस के संदर्भ में है। इस नोटिस में क्रमांक 7 (श्री राणा रणजीत सिंह उधारकर्ता के खाते में) में बकाया तिथि को 30.08.2023 के बजाय "11.09.2023 तक" पढ़ा जाना चाहिए और मांग नोटिस की तारीख को 27.09.2024 के बजाय **27.09.2023** पढ़ा जाना चाहिए। बाकी अन्य विवरण समान रहेंगे।

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR

Case No.: 0A/1553/2023

STATE BANK OF INDIA VS MS SRISHTI

A Proprietorship Firm Through its Proprietors M Avesh Sharma, Having Office at SB-49, Parshavnat Marg, Subhash Nagar, Bani Park, Jaipur, Raiastha 2) Mr Avesh Sharma S/o Shri Govind Ballabh Sharm

R/o Plot No. 163, S-1, II Floor, Kanak Vihar, Kan Nehru Nagar, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan-302021 D-105 Golden OAK, Devi Marg, Bani Park, Jaipt

SB-49, Parshavnath Marg, Subhash Nagar, Jaipu Rajasthan-302016 3) Mrs Anita Sharma W/o Mr. Avesh Sharma R/o Plot No. 163, S-1, II Floor, Kanak Vihar, Kar Nehru Nagar, Ajmer Road, Jaipur, Rajasthan-302021

SB-49, Parshavnath Marg, Subhash Nagar, Jaipui n-302016 (4) Mr. Arvind Kumar Sharma S/o Shri Mahesh Chandr

R/o Plot No. 73/50, Paramhans Marg, Mansard Jaipur, Rajasthan **SUMMONS**

WHEREAS, OA/1553/2023 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 12.03.2024 WHEREA: this Hon'ble Tribunal is pleased to issu summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act. (OA) filed against you for recovery or ebts of Rs. 5285641 (application along with copies

accordance with sub-section (4) of section 19 of th

Act, you, the defendants are directed as und

(i) to show cause within thirty days of the service nons as to why relief prayed for should not b granted. (ii) to disclose particulars of properties or asse other than properties and assets specified by th applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrained from dealing with c disposing of secured assets or such other assets an properties disclosed under serial number 3A of th riginal application, pending hearing and disposal of the pplication for attachment of properties. (iv) You shal application for accomment or properties, by your sup-properties, and the properties of the properties, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial unmber 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal. (by You shall be liable to account approval of the Tribunal. (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 04.10.2024 at 10.30 AM failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 22.05.2024

Assistant Registrar

Debts Recovery Tribunal, Jaipur

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मांग सूचना **जीकृत कार्यातय :** 6टा तल, प्लॉट–15, सेक्टर–44, औद्योगिक क्षेत्र, गुडगांव, हरियाणा–122002,**शाखा कार्यातय :** दूसरा तल, ओशन प्लाजा, पी. सं. 319र, कार्यातय सं. तॉट सं. 319–ए, खसरा सं. 124/4, देवीपुरा, औद्योगिक क्षेत्र के सामने, जयपुर रोड, सीकर 332001, राजस्थान, **शाखा कार्यालय :** पी. सं. 101/171, प्रथम तल, सेक्टर–10

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना । एतद द्वारा सूचित किया जाता है वि निम्नितिखित उधारकर्ता जिन्हों ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण लिया है, वे आईएसएफसील को अपने ऋण की समान मासिक किस्तो (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं कि उनके ऋण खाते को नैशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार गैर-निष्पादित पुरिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है (इएसआई) का भुगतान करन मायफल रह विकरनक ग्रंथा खात का नशनल हाउसिन कहा करा जारा विशानिक्या कर अनुसार गर-नाश्चावत पारस्पात करूपन वगाकृत कियानया है। उद्यासकर्ता(आं) ने आईएसएफसीएल को अचल संपत्तियों के प्रथम प्रवास किया है। उधारकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी आईएसएफसीएल का प्राधिकृत अधिकारों होने के नाते, प्रत्याभृत ऋणदाता ने वितीय संपत्ति के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(ऑं) के खिलाफ कारेयाई शुरू की है और इस अधिनियम के तहत सूचना जारी की है। यदि निम्नलिखत उधारकर्ता सूचना के 60 (साठ) दिनों के मीतर अपने नाम पर इंगित बकाया सांशे का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धाय- 13 की उप–धारा (४) के तहत प्रत्याभृत ऋणदाता को प्रतत्त शक्तियों में से किसी एक या अधिक का उपयोग करेगा, जिनमें कब्जा लेने और उसे बेचने का अधिकार भी शामिल है। आम तौर पर जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्तियों से लेन न करो।

प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता सं.	्नपार (दनाक) मांग सूचना	राशि	प्रत्यामूत पारसपात(आ) का विवरण (अचल संपत्तियां)
श्री/श्रीमती संतोष देवी, श्री/श्रीमती स्व. गिरधारी लाल के कानूनी वारीस और श्री/श्रीमती सुनिल मीणा ऋण खाता सं. HLFX00000030	28 फरवरी, 2019 और 16 मई, 2024	लाख चार हजार तीन सौ पैंतीस और चौबीस पैसा मात्र) 16.05.2024 को	संपत्ति धारक पट्टा सं. 3081, वार्ड सं. 20, मेनन का मोहल्ला बानाडिया बासा, सीकर राजस्थान 332001 का संपूर्ण व सर्वामीण माग ।सीमांकन: पूर्व: श्री महावीर प्रसाद, श्री रामचंद्र आदि की संपत्ति, पश्चिम: श्री मंवरलाल, श्री राजकुमार मीणा आदि की संपत्ति, उत्तर: श्री मंवरलाल, श्री राजकुमार मीणा आदि की संपत्ति, उत्तर: श्री मंवरलाल, श्री राजकुमार मीणा आदि की संपत्ति, दक्षिण: सार्वजनिक रास्ता(रास्ता)
श्री/श्रीमती रामभरोशी और श्री/श्रीमती महेंद्र बैरवा ऋण खाता सं. LAJACLLONS000005046986	9 दिसंबर, 2023 और 28 मई, 2024	तिरेसठ हजार एक सौ नब्बे मात्र) 26.05.2024 को बकाया संग	प्लॉट सं. 48–ए, ग्रीन सिटी, चौथा सरना, डूंगरबेनार रोड, जयपुर क्षेत्र-78 वर्ग गज का संपूर्ण व सर्वागीण भाग। सीमांकन : पूर्व : अन्य भृमि, पश्चिम : 30 फुट सडक, उत्तर : प्लॉट सं. 48, दक्षिण : प्लॉट सं. 49
स्थान : राजस्थान, दिनांक : 05.06.2024			इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपॉरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)



म्भा मार्ग, प्रताप नगर, एचडीएफसी बैंक के पास, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान—302033

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट ऑफिस: यनिट नं. 1117 एवं 1118, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड टेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201 301.

आधिपत्य सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ के नियम ८(१) के अतंर्गत)

रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड ("RHFPL" के रूप मे संदर्भित) पंजीकृत कार्यालय : जजेटी हाउस, ए44/45, रोड़ नं.2 एमआईडीसी, अंधेरी इस्ट, मुम्बई -400093 के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एव पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) की धारा 13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्ते शक्तियों का प्रवर्तन करके कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऋणी(यों)(नीचे वर्णित नाम एवं पता) से उक्त वर्णित अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत सचना प्राप्ति दिनांक से **६० दिन** के अंदर निम्न वर्णित ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।

चुंकि नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रूटि की है अत: नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती हैं कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का **भौतिक आधिपत्य** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। नीचे दर्शाए गए ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड के ऋणी(यों) के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे।

क्रं.	ऋणीयों / सहऋणीयों के नाम/ खाता सं./शाखा	संपत्ति का विवरण	मांग पत्र की दिनांक एवं बकाया राशि	
	लोन : HLNODCPPSC00005009126/ शाखा: नोएडा 1. मो. साबीर 2. नुसरत परवीन पता 1 : ई – 594 सुधीर एन्क्लेव, लोनी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 पता 2 : मकान नंबर 584 ई–ब्लॉक, सुधीर एन्क्लेव ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201102	प्लॉट नं. 24 का आवासीय भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग यार्ड, अर्थात 450 वर्गफीट, खसरा नंबर 11 का भाग, सुधीर एन्क्लेव, ग्राम हकीकतपुर उर्फ खुदाबंस, परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102	15.01.2024	31-05-2024

प्राधिकृत अधिकारी स्थान : गाजियाबाद तर्फे - रोहा हाउसिंग फायनेंस प्रायवेट लिमिटेड | दिनांक : 05-06-2024

मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड गंजीकृत कार्यालयः प्लाट#३, मारूति ज्वाइंट वैंचर कॉम्पलैक्स

दिल्ली-गुरूग्राम रोड, गुरूग्राम, हरियाणा-122015

(Seal)

सीआईएनः एल25209एचआर2003पीएलसी035034 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही / वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित / लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

æ	विवरण	तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	तिमाही समाप्त	
क्र. सं.		31 मार्च, 24	31 मार्च, 24	31 मार्च, 23	
		(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	8,182.16	33,773.93	8,069.40	
2	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	120.53	524.33	11.19	
3	करों और विशिष्ट मदों के पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)	122.51	369.47	18.17	
4	कुल समग्र आय (कर पश्चात)	116.55	363.51	42.52	
5	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/— प्रत्येक)	613.68	613.68	613.68	
6	आरक्षित निधि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार*	~	3,866.53		
7	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) विशिष्ट मदों से पूर्व (ए) मूल ईपीएस (रु.) (बी) तरल ईपीएस (रु.) (अंकित मूल्य रु. 10/-प्रत्येक)	2.00 2.00	6.02 6.02	0.30 0.30	
8	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) विशिष्ट मदों के पश्चात (ए) मूल ईपीएस (७.) (बी) तरल ईपीएस (७.)	2.00 2.00	6.02 6.02	0.30 0.30	

*31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित निधि

... 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए उपर्युक्त अलेखापरीक्षित / लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई थी और निदेशक मंडल द्वारा 4 जून, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में रिकार्ड पर ले लिए गए थे। कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षिकों ने उपरोक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष व कर तिर्देश किया परिक्षित / लेखापरीक्षित परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 31 मार्च, 2024 को समार तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित परिणामों और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित परिणामों का विस्तृत पूण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटः बीएसई (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट

बोर्ड के आदेशानुसा हिते मशीनो प्लास्टिक्स लिमिटेड

दिनांक: 4 जून, 2024

(अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **हकीमुल खान और आरती** को 05.01.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं.** HHLDCP00504628 की राशि रू. 13,64,361.19 (रूपये तेरह लाख चौसठ हजार तीन सौ इकसठ और उन्नीस पैसे मात्र) और 04.01.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 30.05.2024 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 13,64,361.19 (रूपये तेरह लाख चौसठ हजार तीन सौ इकसठ और उन्नीस पैसे मात्र) 04.01.2024 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्रथम मंजिल पर निर्मित सभी भाग और खंड, क्षेत्र माप 37.50 स्ववे. यार्डस (पीछे बाईं हाथ की ओर/दक्षिणी पश्चिमी भाग), छत के अधिकार बिना, जिमन बेअरींग संपत्ति नं. 116 पर स्थित, खसरा नं, 66/12 में से, हस्तसाल गाँव के क्षेत्र में स्थित, ओम विहार नामक कॉलोनी में, फेज़ V, ब्लॉक-ई, उत्तम नगर, गाँव-हस्तसाल, नई दिल्ली-110059 और इसे निम्नानुसार परिबद्ध किया गया है:-

पूर्व : सामने की ओर युनिट / 20 फीट चौड़ी सड़क (प्रवेश) पश्चिम : 10 फीट चौड़ी गली

उत्तर : अन्य की संपत्ति

दक्षिण : दाएँ हाथ की ओर युनिट / अन्य की संपत्ति

उक्त संपत्ति के सामान्य पार्किंग क्षेत्र में रोटेशनल आधार पर सामान्य दोपहिया वाहन पार्किंग अधिकारों के साथ नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वामित्व अधिकारों के साथ, सभी अधिकार शीर्षक फिटिंग और फिक्सचर के साथ सामान्य मार्ग और जमीन से ऊपरी मंजिल तक जाने वाली

दिनांक : 30.05.2024 स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड



एफआरआर ग्रुप, 11वाँ तल, हयात रिजेंसी कॉम्पलैक्स, न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के तहत धारा 13(2) के तहत नोटिस

एतदृद्वारा कर्जदार/बंधककर्ताओं/जमानतियों जिन्होंने बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूव की है और जिनका खाता 29.03.2024 को अनर्जक आरित (एनपीए) वर्गीकृत किया गया है, को सूचित किया जाता है। उनको नोटिस् वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत 16.05.2024 को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर जारी किया गया और उनसे समस्त बकाया राशि दिनांक 30.04.2024 को **७. 1,18,16,893.07/- (रुपये एक करोड़ अठारह लाख सोलह हजार आठ सौ तिरानवे और सात पैसा मात्र)** और 01.05.2024 से लागू ब्याज दर से आगे की ब्याज एवं दंड स्वरूप ब्याज और इस पर वहन अन्य सभी लागतें, प्रभार, व्यय, घटायें जमा यदि कोई हो, के पुनर्भुगतान करने की मांग की गई। हालांकि, कुछ नोटिस बिना सुपुर्द हुए वापस लौट आये और इसलिए वे इस सार्वजनिक नोटिस द्वारा सचित किए जाते हैं।

1. मेसर्स बेदी टेडिंग कंपनी (कर्जदार) अपने प्रॉपराईटर: ऊषा बेदी के माध्यम से, एफ-12/4, मॉडल टाउन-॥, दिल्ली-110009 **अन्य पताः** 20/5 पुस्ता रोड, स्वरूप नगर एक्स. निकट शनि देव मंदिर, दिल्ली–110042

2. सूश्री ऊषा बेदी (जमानती) एफ–12 / 4, मॉडल टाउन–॥, दिल्ली–110009

अन्य पताः फ्लैट नं. 308, पॉकेट सी २, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 **. इशा बेदी (जमानती)** एफ–12 ⁄ 4, मॉडल टाउन–॥, दिल्ली–110009

अन्य पताः फ्लैट नं. 308, पॉकेट सी 2, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 **।. इंद्रेश बेदी (जमानती)** एफ–12 / ४. मॉडल टाउन–॥. दिल्ली–110009

अन्य पताः फ्लैट नं. 308, पॉकेट सी 2, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

कॉलेटरल: मालिक ("बंधककर्ता") द्वारा बैंक के पक्ष में किया गया बंधन सहित कंपनी की समस्त चालू परिसंपत्तियों, अन्य चालू परिसंपत्तियों और चल स्थिर परिसंपत्तियों और चल स्थिर परिसंपत्तियों वर्तमान और भावी दोनों अन्य परिसंपत्तियों और कॉलेटरल प्रतिभृतियों के बिना, के रेहन पर प्रथम औ

संपत्तियों का विवरण मालिक / बंधककर्ता जनकपुरी, नई दिल्ली–110058 स्थित संपत्ति नं. 308, ब्लॉक / पॉकेट सी–2 पर निर्मित प्रथम तल का पीछे का हिस्सा (छत अधिका रहित) एरिया माप 900 वर्ग फट जिसमें एक डॉइंग /डाईनिंग रूम दो बेड रूम एक रसोई दो टॉयलेट आदि विधिवत लगे बिजले और पानी के कनैक्शन और कॉमन रास्ता, सीढ़ियां और उक्त बिल्डिंग में अन्य सभी सुविधाओं एवं जमीन के अविभाजित समानुपातिक अधिकार सहित।

उपरोक्त कर्जदार और उनके जमानतियों एवं बंधककर्ताओं को एतदद्वारा बकाया राशि का इस नोटिस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर भगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत 60 दिनों की समाप्ति पर आगे की . हार्रवाई की जायेगी।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, <mark>मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7),</mark> पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि — 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाषः +91 484-2396478, 2394712, फैक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com. www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.09.2021 की अवधि तक के NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। प्रथम नीलामी की तिथि: 12.06.2024

जालोर (रा) (3466): MDL-173, MUL-1955, 2874, RGL-624, 626, 762, 817, 828, 908, 940, 951, 994, 1026, 1057, 1085, 1087, 1089, 1131, 1143, 1160, 1169, 1170, 1177, 1243, 1260, 1261, 1268, भीनमाल-(रा) (4589): MUL-1863, RGL-615, 680, 1034, 1072, 1089, 1090, 1123, 1149, 1156, 1192, 1225

द्वितीय नीलामी की तिथि: 13.06.2024, नीलामी स्थान: मृथुट फाईनान्स लिमिटेड, पहली मंजिल, दुकान नं-110-111 और 122-123, सिटी सेंटर, नेरा हरिदेव जोशी सर्कल, बागोड़ा रॉड, जालोर-राजस्थान-343001 प्रथम नीलामी की तिथि: 12.06.2024

बाड़मेर-नेहरू नगर (2897): MAL-1772, MDL-559, MEG-27, MUL-4809, 4831, 4833, RGL-362, 904, 1105, 1203, 1382, 1391, 1459, 1500, 1625, 1689, 1700, 1705, 1777, 1778, 1779, 1780, बालोत्तरा (रा) (2968): MDL-451, 472, 479, 485, 496, 511, MEG-25, MUL-5187, 5188, RGL-1189, 1350, 1631, 1882, 1899, 1936, 1945, 1954, 1967, 1976, 1988, बाड़मेर स्टेशन रोड (रा) (2971): MAL-1451, MDL-345, 360, 361, MUL-3664, 4050, 4053, RGL-408, 820, 1088, 1159, 1181, 1203, 1219, 1246, 1257, 1262, 1263, 1289, 1308, 1310, 1311, 1319, 1331, 1342

द्वितीय नीलामी की तिथि: 14.06.2024, नीलामी स्थान: मुथ्रूट फाईनान्स लिमिटेड, निचला तल, गोपाल होटल कॉम्प्लेक्स जोधपुर रोड, नेहरू नगर, बाडमेर, राजस्थान-344001

प्रथम नीलामी की तिथि: 12.06.2024

डूंगरपुर (रा) (4100): MAL-765, MDL-647, MUL-2339, RGL-354, 662, 698, 722, 980, 991, 1095, 1101, 1113, 1157, 1175 द्वितीय नीलामी की तिथि: 15.06.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, पहली मंजिल, प्लॉट नं-10ए, मुख्य बाजार

सागवाड़ा रोड, डूंगरपुर-राजस्थान-314001 प्रथम नीलामी की तिथि: 14.06.2024

कोटद्वारा-(यूटी) (2472): BLS-8, 34, MAL-1204, 1364, MDL-220, 588, 825, 862, 909, 952, 960, 976, 989, 992, 1007, MEG-35, MOL-292, 431, MUL-1508, 3807, 4211, RGL-713, 1127, 1283, 1301, 1503, 1571, 1604, 1660, 1664, 1730, 1753, 1811, 1988, 2042, 2047, 2079, 2148, 2190, 2204, 2205, 2248, 2258, 2259, 2330

द्वितीय नीलामी की तिथि: 15.06.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, आंध्रा बैंक के ऊपर, झंडा चौक कोटद्वार-246149

प्रथम नीलामी की तिथि: 17.06.2024

शामली-(उप्र) (4781): MAL-269, MDL-449, 462, 518, 521, 550, MOL-214, MUL-490, RGL-630, 1154, 1629, 1684, 1689, 1692, 1726, 1755, 1758, 1821, 1840

द्वितीय नीलामी की तिथि: 18.06.2024, नीलामी स्थान: पहली मंजिल, खादी भारत के ऊपर, प्रॉपर्टी नं 275, वार्ड नं 20, बस रटैंड के पास, बुढ़ाना रोड, जिला शामली, उ.प्र.-247776

प्रथम नीलामी की तिथि: 17.06.2024

मुज़फ़्फ़रनगर (उप्र) (4691): BLS-6, MDL-654, 748, 837, 1009, 1103, 1129, 1135, 1222, MOL-1045, 1256, 1451, MUL-1933, 5089, 5096, 5164, 5230, 5234, 5282, 5291, 5452, 5507, 5528, 5544, खतौली (उप्र): MDL-153, 273, 289, 306, RGL-411, 1115, 1225, 1275, 1377, 1528, 1535, 1647, 1666, मुज़फ़्फ़रनगर-अंसारी रोड (उप्र) (**4903**): MAL-211, MDL-231, 239, 241, 301, MUL-1805, 1875, 1879, 1890 द्वितीय नीलामी की तिथि: 19.06.2024, नीलामी स्थान: मुथूट फाईनान्स लिमिटेड, निचला तल, निकटवर्ती एसबीआई, रेलवे रोड, मुजफ्फरनगर, उ.प्र.-251001

प्रथम नीलामी की तिथि: 24.06.2024

दिल्ली-ऋषभ विहार (0328): MHP-512 द्वितीय नीलामी की तिथि: 25.06.2024, नीलामी स्थान: 111-112, पहली मंजिल, रूट्स टावर, प्लॉट नं-7, डिस्ट्रिक्ट सेंटर लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी दूसरी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएँगी / जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों| में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली - 110024 नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भूगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क



दिनांकः 05.06.2024

एफआरआर ग्रुप, 11वाँ तल, हयात रिजेंसी कॉम्पलैक्स. न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

("अधिनियम") के तहत धारा 13(2) के तहत नोटिस रतदृद्वारा कर्जदार/बंधककर्ताओं/जमानतियों जिन्होंने बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चू की है और जिनका खाता 27.02.2024 को अनर्जक आस्ति (एनपीए) वर्गीकृत किया गया है, को सूचित किया जाता है। उनको नोटिस वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत 22.05.2024 को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर जारी किया गया और उनसे समस्त बकाया राशि दिनांक 30.04.2024 को **र. 26,62,906.99/– (रुपये छब्बीस लाख बासठ हजार नौ सौ छह और निन्यानवे पैसा मात्र)** और 01.05.2024 से लागू ब्याज दर से आगे की ब्याज एवं दंड स्वरूप ब्याज और इस पर वहन अन्य सभी लागतें, प्रभार, व्यय, घटायें जमा यदि कोई हो, का पुनर्भुगतान

1. मेसर्स सक्सेस मार्केटिंग (कर्जदार) अपने प्रॉपराईटरः **रमेश सिंघल** के माध्यम से, बी—1/5, चार खंबा, मागरा पंजाला, जोधपुर ाजस्थान–342304

करने की मांग की गई। हालांकि, कुछ नोटिस बिना सुपुर्द हुए वापस लौट आये और इसलिए वे इस सार्वजनिक नोटिस द्वारा सूचित

2. श्री रमेश सिंघल (जमानती) 1146, चार खंबा रोड, मागरा, पंजाला, जोधपूर, राजस्थान-342304

अन्य पता: प्लॉट नं 219 और 220. खसरा नं 691 / 11. श्री एसएसडी इंडस्टियल एरिया. सेक्टर सी. ग्राम भवद, तहसील- ओशियन, जिला जोधपर राजस्थान—342304 3. श्रीमती मीना सिंघल (जमानती) 1146. चार खंबा रोड. मागरा, पंजाला, जोधपर, राजस्थान-342304

अन्य पताः प्लॉट नं. बी-1/6, बी-1/5, बी-2, निकट चार खंबा, मागरा, पंजाला, ग्राम पंजाला, जोधपुर-342304

4. मेसर्स फ्रंटलाइन मार्केटिंग हाऊस (कॉर्पोरेट जमानती) सुमंगल भवन के सामने, जूनी बाजार, 6वां सी. रोड, महामंडी, जोधपुर, राजस्थान—342001

कॉलेटरल: मालिक (''बंधककर्ता'') द्वारा बैंक के पक्ष में किया गया बंधन सहित समस्त चल स्थिर परिसंपत्तियों के रेहन और इन्वेंट्री व बही ऋण कॉलेटरत प्रतिभतियों पर प्रथम और एकमात्र प्रभारः

संपत्तियों का विवरण मालिक / बंधककत मीना सिंघल . प्लॉट नं. बी—1 / 6, बी—1 / 5, बी—2, चार खंबा, मागरा, पंजाला, ग्राम पंजाला, जोधपुर (माप 16.66 + 16.66 + 116.66 = 149.98 वर्ग गज लगभग) 2. प्लॉट नं. 219 और 220, खसरा नं. 691 / 11, श्री एसएसडी इंडिस्ट्रियल एरिया, सेक्टर सी, ग्राम भवद, तहसील— ओशियन, जोधपुर रमेश सिंघल उपरोक्त कर्जदार और उनके जमानतियों एवं बंधककर्ताओं को एतदद्वारा बकाया राशि का इस नोटिस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर

भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत 60 दिनों की समाप्ति पर आगे की , हार्रवाई की जायेगी।

स्थानः जयपुर





प्राधिकृत अधिकारी, इंडसइंड बैंक लि.

SONA COMSTAR सोना बी एल डब्ल्यू प्रिसीशन फोर्जिंग्स लिमिटेड

(CIN: L27300HR1995PLC083037) पंजीकृत कार्यालयः सोना एन्क्लेव, ग्राम बेगमपुर खटोला सेक्टर 35, गुरुग्राम-122004, हरियाणा, **दूरभाष नंबर :-** 0124 - 476 8200

ईमेल : investor@sonacomstar.com वेबसाइट: www.sonacomstar.com

शेयरधारकों को 28वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), शुक्रवार, 28 जून, 2024 को मध्या. 12.00 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग मोड (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के **माध्यम से**, उभय स्थान पर सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जानी निर्धारित है।

कम्पनी, कार्पोरेट मंत्रालय **(एमसीए)** द्वारा जारी सर्कुलर दिनांकित 25 सितम्बर, 2023, 28 दिसम्बर, 2022, 5 मई, 2022, 14 दिसम्बर, 2021 के साथ पठित सर्कुलर दिनांकित 13 जनवरी, 2021, 5 मई, 2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 और अन्य लागु सर्कुलर्स, यदि कोई, के अनुसार और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड **(सेबी)** के सर्कुलर दिनांकित ७ अक्टूबर, 2023, 5 जनवरीं, 2023, 13 मई, 2022 के साथ पठित 15 जनवरीं, 2021 तथा 12 मई, 2020 **(सामूहिक रूप से "सर्कुलर्स" कहे गए** हैं) के अनुसार 28वीं एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा मंगलवार, 04 जून, 2024 को कम्पनी के उन सभी सदस्यों को भेज चुकी है, जिनका ई—मेल पता **शुक्रवार, 31 मई, 2024** को कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(पार्टिसिपेंटस) के पास पंजीबद्ध है। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता. सेबी द्वारा जारी उपरिवर्णित सर्कलर्स के संदर्भ में समाप्त कर दी गई है। 28वीं एजीएम की सूचना तथा कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.sonacomstar.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यगण कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट https://sonacomstar.com/investor/annual-reports-and-returns के माध्यम से देख सकते हैं।

सदस्यगण एजीएम में केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं। एजीएम से जुड़ने के लिए अनुदेश तथा डीमैटीरियलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयरों के घारक सदस्यों के लिए रिमोट ई—वोटिंग अथवा वोट डालने की विधि और उन सदस्यों, जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, के लिए 28वीं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएँगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत अनुरक्षित निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत उन संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिनमें निदेशकों के हित हैं, वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना और सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी अन्य दस्तावेज, जिनमें सेबी शेयर आधारित कर्मचारी हितलाम और स्वीट इक्विटी) विनियमावली, 2021 के विनियम 13 के तहत कम्पनी के सचिवीय . लेखापरीक्षकों के प्रमाणपत्र शामिल हैं, इस सूचना के प्रसारण की तिथि से एजीएम की तिथि अर्थात **शुक्रवार, 28 जून, 2024** तक तथा एजीएम के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा बिना कोई शुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। इन दस्तावेजों के निरीक्षण के इच्छुक सदस्यगण <u>investor@sonacomstar.com</u> को ई—मेल भेज सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और सेबी तथा एमसीए सर्कुलर्स के अनुसरण में, कम्पनी सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन हेतु, कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड **(एनएसडीएल)** के साथ अधिकृत एजेन्सी के तौर पर, एक अनुबंध निष्पादित किया है। सदस्य द्वारा रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम की तिथि को

सदस्यगण, जिनके नाम **कट—ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 21 जून, 2024** को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज मौजूद होंगे, इस सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर वोट डालेने के हकदार होंगे। कोई व्यक्ति, जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसको एजीएम की यह सूचना जानकारी मात्र के निमित्त समझनी चाहिए। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, सदस्यगण, जो अपना वोट रिमोट ई—वोटिंग द्वारा डाल चुके होंगे, उनको बैठक में पुनः वोट डॉलने की अनुमति नहीं होगी।

रिमोट ई—वोटिंग अवधि मंगलवार, 25 जून, 2024 को पूर्वा. 09.00 बजे (आईएसटी) आरंभ होगी तथा बृहस्पतिवार, 27 जून, 2024 को अप. 05.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होंगी। तदुपरांत, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉंड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्यगण, जिनके नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 21 जून, 202**4 को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज मौजूद होंगे, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकेंगे। सदस्यों का वोटिंग अधिकार, कट—ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

सेबी द्वारा जारी उपरिवर्णित सर्कुलर के अनुसार, सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की

जिन सदस्यों ने ई—मेल पता पंजीकृत / अद्यतित नहीं करवाया है, उनसे निम्नवर्णित प्रक्रिया अपनाने का अनुरोध किया जाता है : ई—मेल पता पंजीकृत / अद्यतित करवाने की विधि :

क) भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतित करवाने की विधि : भौतिक रूप में शेयरों के धारक जिन सदस्यों द्वारा अपना ई–मेल पता कम्पनी में पंजीकृत / अद्यतित नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसका पंजीकरण / अद्यतनीकरण कम्पनी के रजिस्ट्रर एवं ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") को हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर-1 भेज कर करवा लें। सदस्यगण कम्पनी/आरटीए को भी क्रमानुसार investor@sonacomstar.com / einward.ris@kfintech.com पर भी लिख सकते हैं, जिसमें फोलियो नंबर, सदस्य का नाम और पता, स्थायी खाता संख्या (पैन), ई-मेल पता, मोबाइल नंबर इत्यादि के उल्लेख के साथ हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर-1 संलग्न किया जाना चाहिए।

ख) भौतिक रूप में शेयरों के घारक सदस्यों के लिए ई-मेल पता पंजीकृत / अद्यतित करवाने की विधि : अभौतिक क्तप में शेयरों के धारक सदस्यों, से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से सम्पर्क कर पंजीकृत / अद्यतित करवा लें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री अंकित सिंघी (एसीएस नंबर — 11685 ; सीपी नंबर 16274) और उनकी अनुपस्थिति में श्री नीतेश लातवाल (एसीएस नंबर – 32109 ; सीपी नंबर 16276) पार्टनर्स मैसर्स पीआई ऐंड एसोसिएट्स, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरीज को एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा वोटिंग तथा रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए अंतिम लामांश हेतु शेयरधारकों के अधिकार निर्धारण के प्रयोजनार्थ रेकार्ड तिथि **शुक्रवार 14** जून, 2024 है। अंतिम लाभांश का भुगतान इसकी घोषणा की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जाएगा, जो आगामी एजीम में शेयरधारकों की मंजरी की शर्त के अधीन होगा। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरीज (जहाँ उनके शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं) के पास तथा कम्पनी के आरटीए के पास (जहां उनके शेयर भौतिक रूप में धारित हैं) हस्ताक्षरित फार्म आईएसआर—1 भेजकर अपना केवाईसी अद्यतित करवा लें। उक्त फार्म कम्पनी की वेबसाइट https://sonacomstar.com/investor-relations पर उपलब्ध है। जो सदस्य लामांश के भुगतान की तिथि को भुगतान सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक आदेश पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं, उनके लिए उसकी विधि का विस्तृत विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है।

किसी संदेह की रिथ्ति में, सदस्यगण कम्पनी से 91—124—476 8200 / ई—मेल आईडी : <mark>investor@sonacomstar.com</mark> पर सम्पर्क करें अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार ऐंड ट्रांसफर एजेन्ट्स, मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वत: "कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से ज्ञात) कार्यालय पता : सेलेनियम बिल्डिंग, टावर बी, प्लॉट नंबर 31—32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगूडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद—500 032, सम्पर्क विवरण : टोल फ्री नंबर : 1800—3094—001 से सम्पर्क करें अथवा ई—मेल आईडी : einward.ris@kfintech.com पर ई—मेल अनुरोध भेजें ।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

M.No. F5253

सोना बीएल डब्ल्यू प्रिसीशन फोर्जिंग्स लिमिटेड अजय प्रताप सिंह

गुप जनरल काउन्सिल, कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी





दिनांकः 04 जून, 2024

स्थानः गुरुग्राम,

sona

SONA COMSTAR